



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1360]

No. 1360]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2006/कार्तिक 23, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2006/KARTIKA 23, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2006

का.आ. 1951(अ).—भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियमावली, 1975 के नियम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जगतगंज, वाराणसी की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से एक सदस्य को, उक्त विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259(अ), में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्वाचित" शीर्षक के अंतर्गत सारणी में, निम्नलिखित विश्वविद्यालय के सामने, उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

तालिका

विश्वविद्यालय का नाम	सदस्य का विवरण	चिकित्सा पद्धति	निर्वाचन की तारीख	संकाय में सदस्यता की वैध अवधि
1	2	3	4	5
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जगतगंज, वाराणसी	प्रो. डा. जयराम यादव, प्रिंसीपल, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, वाराणसी, उ.प्र.	आयुर्वेद	16-3-2005	1-1-2005 से 31-12-2007

[सं. ए-11019/6/2006-सीसीआईएम निर्वाचन]

शिव बंसंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2006

S.O. 1951(E).—Whereas, in pursuance of clause (d) of Sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with the rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, one member from Ayurveda system of Medicine of Sampurnanand Sanskrit University, Jagatganj, Varanasi has been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda faculty of the said University ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, number S.O. 3259 (E), dated the 21st August, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (b) of Sub-section (1) of Section 3”, in the Table, against the following University, for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Name of the University	Particulars of the member	System of Medicine	Date of election	Valid term of Membership in the Faculty
1	2	3	4	5
Sampurnanand Sanskrit University Jagatganj, Varanasi	Prof. Dr. Jaya Ram Yadav, Principal, State Ayurvedic College, Varanasi, U.P.	Ayurveda	16-3-2005	1-1-2005 to 31-12-2007

[No. A-11019/6/2006-CCIM Election]

SHIV BASANT, Jt. Secy.